

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ

पत्रांक 439 /

पूर्णियाँ, दिनांक 21/02/2024-

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ ।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी, MR(3054),
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय : शीर्ष MR (3054) मरम्मत एवं सम्पोषण योजना मद में राशि आवंटित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष MR (3054) मरम्मत एवं सम्पोषण योजना मद में इस प्रमंडल को संलग्न विवरणी में अंकित राशि की आवश्यकता है ।
अतः अनुरोध है कि अधियाचित राशि आवंटित करने की कृपा की जाय ।

अनु० - यथोक्त ।

अधियाचना की प्रति (मूल में)

विश्वासभाजन

21/02/24

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ ।

21/2/24

Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) under Rural Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division : RWD, Works Division, Purnea													
Sl. No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)
					Length (in KM)	Amount of (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	MR- N/22-23, Purnea/ 11	Chakla to Majra	211052 L N-1406 Dated 12003 07.09.2022		4.682	182.42500	123.37158	55.22176	110MBD/ 2022-23 dt. 07.01.23	05.10.23	--	3.501	25
2	MR- N/22-23, Purnea/ 11	Baheliya Asthan to Lohjar	211052 L N-1406 Dated 02203 07.09.2022		1.500	71.71000	44.60564	19.88733	110MBD/ 2022-23 dt. 07.01.23	05.10.23	--	3.501	25
Total					6.182	254.13500	167.97722	75.10909					
										117.41800	117.41800	50.55200	
													19
													Comp
													Comp

1. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI in enclosed.
2. Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS


Divisional Accounts Officer
RWD, Works Division, Purnea


Executive Engineer
RWD, Works Division, Purnea

Lab Job number :51/RWD PURNEA

Date :25-12-2023

Name of Customer :BHAGWATI ENTERPRISES

Name of Work/ Road :CHAKLA TO MANJRA

Sr.no Location of Corrected U.I Road category
test(in km) value(mm/km)

763	0.1	1722 G
764	0.2	1836 G
765	0.3	2404 G
766	0.4	1950 G
767	0.5	2177 G
768	0.6	1950 G
769	0.7	2745 G
770	0.8	1950 G
771	0.9	1950 G
772	1	1722 G
773	1.1	2858 G
774	1.2	2290 G
775	1.3	2177 G
776	1.4	2631 G
777	1.5	2063 G
778	1.6	2518 G
779	1.7	2404 G
780	1.8	1950 G
781	1.9	1722 G
782	2	3086 G
783	2.1	2518 G
784	2.2	2972 G
785	2.3	2518 G
786	2.4	2290 G
787	2.5	2290 G
788	2.6	1836 G
789	2.7	2518 G
790	2.8	1722 G
791	2.9	3086 G
792	3	2518 G
793	3.1	1950 G
794	3.2	2631 G
795	3.3	1609 G
796	3.4	1950 G
797	3.5	1609 G
798	3.6	2404 G
799	3.7	2063 G
800	3.8	2290 G
801	3.9	3086 G
802	4	1950 G
803	4.1	2745 G
804	4.2	2290 G
805	4.3	1722 G
806	4.4	1722 G
807	4.5	2177 G
808	4.6	1382 G


Average	2216.36
---------	---------

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	UIV	CATEGORY ROAD	IRI	Latitude	ongitude	Event
25/12/23	9:40:26	17	0.1	140	0	1400	1722 G	2.45	25.74193	87.38737	Normal	Y = 0 * X ^ 2 + 1.136 * X + 132.5
25/12/23	9:40:26	17	0.1	150	20.2	1500	1836 G	2.6	25.742	87.38641	Normal	X = 1300
25/12/23	9:41:1	17	0.1	200	20.2	2000	2404 G	3.3	25.74205	87.38545	Normal	Y = 1609
25/12/23	9:41:1	17	0.1	160	20.2	1600	1950 G	2.74	25.74194	87.38458	Normal	
25/12/23	9:41:36	17	0.1	180	10.1	1800	2177 G	3.02	25.74174	87.38364	Normal	
25/12/23	9:41:36	17	0.1	160	20.2	1600	1950 G	2.74	25.74156	87.38271	Normal	(R) RURAL ROAD
25/12/23	9:42:11	17	0.1	230	10.1	2300	2745 G	3.72	25.74137	87.38182	Speed Break	Average
25/12/23	9:42:11	17	0.1	160	10.1	1600	1950 G	2.74	25.7412	87.38098	Normal	Poor
25/12/23	9:43:0	17	0.1	160	10.1	1600	1950 G	2.74	25.74096	87.38012	Normal	4001-5000 >5001
25/12/23	9:43:0	17	0.1	140	10.1	1400	1722 G	2.45	25.74069	87.37919	Speed Breaker	
25/12/23	9:43:22	17	0.1	240	10.1	2400	2858 G	3.85	25.74047	87.37835	Normal	
25/12/23	9:44:0	17	0.1	190	10.1	1900	2290 G	3.16	25.74002	87.37823	Curve	
25/12/23	9:44:0	17	0.1	180	20.2	1800	2177 G	3.02	25.73942	87.37894	Normal	
25/12/23	9:44:33	17	0.1	220	10.1	2200	2631 G	3.58	25.7387	87.37921	Normal	
25/12/23	9:44:33	17	0.1	170	20.2	1700	2063 G	2.88	25.73829	87.38002	Normal	
25/12/23	9:45:8	17	0.1	210	20.2	2100	2518 G	3.44	25.73769	87.38074	Normal	
25/12/23	9:45:8	17	0.1	200	20.2	2000	2404 G	3.3	25.73693	87.38114	Normal	
25/12/23	9:45:8	17	0.1	160	20.2	1600	1950 G	2.74	25.73632	87.38192	Curve	
25/12/23	9:45:43	17	0.1	140	20.2	1400	1722 G	2.45	25.7357	87.38138	Normal	
25/12/23	9:46:0	17	0.1	260	20.2	2600	3086 G	4.13	25.73501	87.38076	Normal	
25/12/23	9:46:18	17	0.1	210	20.2	2100	2518 G	3.44	25.73429	87.38013	Normal	
25/12/23	9:46:18	17	0.1	250	20.2	2500	2972 G	3.99	25.73361	87.37956	Normal	
25/12/23	9:46:18	17	0.1	210	20.2	2100	2518 G	3.44	25.73291	87.37896	Normal	
25/12/23	9:46:18	17	0.1	190	20.2	1900	2290 G	3.16	25.73228	87.37838	Normal	
25/12/23	9:47:0	17	0.1	190	20.2	1900	2290 G	3.16	25.73156	87.37781	Culvert	
25/12/23	9:47:0	17	0.1	150	20.2	1500	1836 G	2.6	25.7282	87.3749	Normal	
25/12/23	9:48:40	17	0.1	210	20.2	2100	2518 G	3.44	25.72741	87.37444	Normal	
25/12/23	9:48:40	17	0.1	140	20.2	1400	1722 G	2.45	25.7267	87.37407	Normal	
25/12/23	9:49:0	17	0.1	260	20.2	2600	3086 G	4.13	25.72598	87.3737	Normal	
25/12/23	9:49:15	17	0.1	210	20.2	2100	2518 G	3.44	25.7252	87.37328	Normal	
25/12/23	9:49:15	17	0.1	160	20.2	1600	1950 G	2.74	25.7244	87.37286	Normal	
25/12/23	9:49:50	17	0.1	220	20.2	2200	2631 G	3.58	25.72364	87.37244	Normal	
25/12/23	9:50:0	17	0.1	130	20.2	1300	1609 G	2.31	25.72285	87.37204	Normal	
25/12/23	9:50:25	17	0.1	160	20.2	1600	1950 G	2.74	25.72204	87.37163	Normal	
25/12/23	9:50:25	17	0.1	130	20.2	1300	1609 G	2.31	25.72123	87.37133	Normal	

25/12/23	9:51:1	17	0.1	200	20.2	2000	2404 G	3.3	25.72045	87.37104	Normal
25/12/23	9:51:1	17	0.1	170	20.2	1700	2063 G	2.88	25.71968	87.37076	Normal
25/12/23	9:51:1	17	0.1	190	20.2	1900	2290 G	3.16	25.71884	87.37047	Normal
25/12/23	9:51:36	17	0.1	260	20.2	2600	3086 G	4.13	25.71802	87.37017	Normal
25/12/23	9:52:0	17	0.1	160	20.2	1600	1950 G	2.74	25.71729	87.36988	Normal
25/12/23	9:52:11	17	0.1	230	20.2	2300	2745 G	3.72	25.71643	87.36958	Normal
25/12/23	9:52:11	17	0.1	190	10.1	1900	2290 G	3.16	25.71574	87.36919	Culvert
25/12/23	9:53:0	17	0.1	140	10.1	1400	1722 G	2.45	25.71494	87.36891	Normal
25/12/23	9:53:10	17	0.1	140	10.1	1400	1722 G	2.45	25.71483	87.36891	Normal
25/12/23	9:53:22	17	0.1	180	20.2	1800	2177 G	3.02	25.71414	87.3686	Normal
25/12/23	9:53:22	17	0.1	110	10.1	1100	1382 G	2.02	25.71327	87.36827	Culvert
AVERAGE							2216.36				


File :H:\23120833.Xls, Section No. :17, Eqn :test

Name of Customer :BHAGWATI ENTERPRISES, Name of Work/ Road :CHAKLA TO MANJRA, Lab Job number



कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ


प्रमाणित किया जाता है कि एम0आर0 3054 योजनान्तर्गत Chakla to Majra पथ में कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है एवं साथ ही कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता एवं 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है ।



कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा के0 नगर



सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, के0 नगर



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ